

Please look for the symbols and sign accordingly:

C Customer Signature

B Branch Official Signature

N Nominee Signature

fw First Witness Signature

sw Second Witness Signature

NOTE:

- All the supporting documents submitted must be self-attested by client.
- All the supporting documents must be attested by Branch as “Verified with Original” with Branch official name, SS Number/Code Number, Date.
- Any alteration/overwriting in the form(s)/documents(s) need to be authenticated by the client by way of his/her signature near alteration/overwriting.

DOCUMENTS REQUIRED:

ID PROOF	PAN CARD
ADDRESS PROOF (ANY ONE)	1) Vijaya Bank Passbook/Vijaya Bank Statement(Latest 3 months) 2) Ration card (check expiry date) 3) Passport (check expiry date) 4) Voter ID card 5) Driving license (check expiry date) 6) AADHAAR 7) Electricity Bill, Gas Bill (not more than three months old) 8) Residence Telephone Bill (only BSNL & MTNL - not more than three months old)

PHOTOS:

TWO PHOTOS OF CLIENT	PASSPORT SIZE (NOT STAMP SIZE)
ONE PHOTO OF NOMINEE	PASSPORT SIZE (NOT STAMP SIZE)

For NRI Customer - ADDITIONAL REQUIREMENTS:

- For non-residents and foreign nationals, (allowed to trade subject to RBI and FEMA guidelines), copy of passport/PIO Card/OCI Card and overseas address proof is mandatory.
- FEMA Declaration.

DP ID : IN 302806

अनुबंध जे
ANNEXURE J

विजया बैंक
VIJAYA BANK

(A Government of India Undertaking)
Head Office : 41/2, M.G. Road,
Bangalore - 560 001
Dept. : Merchant Banking Division
डीपी सेल/DP Cell

क्रम सं. Sl. No.

खाता खोलने लिए आवेदन - पत्र

(केवल व्यक्तियों के लिए)

APPLICATION FOR OPENING AN ACCOUNT

(For Individuals Only)

शाखा / Branch _____

दिनांक : _____	ग्राहक का आईडी (सहभागी द्वारा भरा जाए)								
Date :	Client Id (To be filled by Participant)								

आपसे अनुरोध है कि नीचे उल्लिखित ब्यौरे के अनुसार मेरे / हमारे नाम निक्षेपागार खाता खोलें :

I/We request you to open a depository account in my / our name as per the following details :

(कृपया समस्त ब्यौरे मोटे अक्षरों में ही भरें)/(Please fill all the details in CAPITAL LETTERS only)

खाते का प्रकार / Type of Account

<input type="checkbox"/> साधारण निवासी/Ordinary Resident	<input type="checkbox"/> एनआरआई-प्रत्यावर्तनीय / NRI-REPATRIABLE	<input type="checkbox"/> हिंदू अविभाजित परिवार / HUF
<input type="checkbox"/> एनआरआई-अप्रत्यावर्तनीय / NRI - NON - REPATRIABLE	<input type="checkbox"/> अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें) / Others (Please specify)/	

एकमात्र / प्रथम धारक के ब्यौरे / Sole/First Holder's Details

नाम/Name									
पिता/पति का नाम/Name of Father/Husband									
स्थानीय/स्थायी पता Local / Permanent Address									
	पिन कोड Pin Code								
पत्राचार के लिए पता (अगर अलग हो तो) Correspondence Address (If different)									
	पिन कोड Pin Code								
टेलीफोन सं./Telephone No.	मोबाइल सं Mobile No.		एसएमएस सुविधा SMS Facility	हाँ <input type="checkbox"/>	नहीं <input type="checkbox"/>				
फैक्स सं / Fax Number	ई-मेल आई डी/E-mail ID								
उद्योग / Occupation	मैपिन आई डी/MAPIN ID								
अन्य धारक के ब्यौरे / Other Holder Details									
द्वितीय धारक का नाम/Second Holder Name									
पिता/पति का नाम/Name of Father / Husband									
पता Address									
पिन कोड Pin Code									
टेलीफोन सं. / Telephone No.	मोबाइल सं Mobile No.		एसएमएस सुविधा SMS Facility	हाँ <input type="checkbox"/>	नहीं <input type="checkbox"/>				
फैक्स सं / Fax Number	ई-मेल आई डी/E-mail ID								
उद्योग / Occupation	मैपिन आई डी/MAPIN ID								
तृतीय धारक का नाम / Third Holder Name									
पिता/पति का नाम/Name of Father/Husband									
पता Address									
पिन कोड Pin Code									
टेलीफोन सं./ Telephone No.	मोबाइल सं Mobile No.		एसएमएस सुविधा SMS Facility	हाँ <input type="checkbox"/>	नहीं <input type="checkbox"/>				
फैक्स सं / Fax Number	ई-मेल आई डी/E-mail ID								
उद्योग / Occupation	मैपिन आई डी/MAPIN ID								

सूचना/कंपनी लाभ के लिए पता (डिफाल्ट विकल्प है स्थानीय कार्यालय का पता) Address for communication / Corporate Benefits (Default option is Local Address)	स्थानीय / स्थायी पता Local / Permanent Address	<input type="checkbox"/>
	पत्राचार के लिए पता / विदेशी पता Correspondence Address / Foreign Address	<input type="checkbox"/>

अभिरक्षक के ब्यौरे (एकमात्र खाताधारक नाबालिग हो तो) / Guardian Details (In case the Sole Holder is a minor)

नाम / Name									
पिता/पति का नाम / Name of Father/Husband									
पता Address							पिन कोड Pin Code		
जन्म दिनांक (नाबालिग का) / Date of Birth (of minor)									
	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y	

एनआरआई हो तो / In case of NRIs

विदेश में पता / Foreign Address									
							पिन कोड Pin Code		
भा.रि.बै संदर्भ सं. / RBI Ref No.	भा.रि.बै. अनुमोदन दिनांक / RBI Approval Date								
	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y	

बैंक के ब्यौरे / Bank Details

बैंक उप-प्रकार / Bank Sub-type	बचत खाता / Savings Account <input type="checkbox"/>	चालु खाता / Current Account <input type="checkbox"/>							
बैंक खाता सं. / Bank Account No.									
बैंक का नाम / Bank Name									
खाता का पता / Branch Address									
							पिन कोड Pin Code		
बैंक द्वारा जारी एमआईआर चेक पर दर्शाई गई बैंक और शाखा की 9 अंकवाली कूट संख्या / 9-Digit Code Number of the Bank and branch appearing on the MICR cheque issued by the Bank									

वित्तीय ब्यौरे / Financial Details

IFSC Code								
	पी.ए.एन. P.A.N.				आईटी सर्कल/वार्ड/जिला सं IT Circle/Ward/District No.			
एकमात्र/प्रथम धारक / Sole/First Holder								
द्वितीय धारक / Second Holder								
तृतीय धारक / Third Holder								
अभिरक्षक (नाबालिग हो तो) Guardian (In case of Minor)								

स्थाई अनुदेश / Standing Instructions

मैं/हम प्राधिकार देता हूँ/देते हैं कि आप हमारे खाते में अपने आप जमा प्राप्त करें I/We authorise you to receive credits automatically into our / my account	<input type="checkbox"/> हाँ Yes	<input type="checkbox"/> नहीं No
मुख्तारनामे के जरिए खाते का परिचालन किया जाए Account to be operated through Power of Attorney (PoA)	<input type="checkbox"/> हाँ Yes	<input type="checkbox"/> नहीं No

Additional Financial Details

Financial Status (Annual Income)	<Rs. 5 Lakh	Rs. 5 - 10 Lakh	Rs. 10 - 15 Lakh	Rs. >Rs. 15 Lakh
Nature of Business				

नीचे उपलब्ध जगह में हाल ही में लिए गए पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएँ /

Please attach recent passport size photographs in the space provided below

एकमात्र/प्रथम धारक / Sole/First Holder	द्वितीय धारक / Second Holder	तृतीय धारक / Third Holder
C1/1 फोटोग्राफ पर हस्ताक्षर Signature Across Photograph	फोटोग्राफ पर हस्ताक्षर Signature Across Photograph	फोटोग्राफ पर हस्ताक्षर Signature Across Photograph

घोषणा/Declaration

हमने, खाते से संबंधित निक्षेपागार और निक्षेपागार सहभागियों के प्रचलित नियमों और विनियमों को पढ़ा है और उन्हें समझा है और हम, उनका पालन करते और इन खातों के लिए समय-समय पर यथा प्रवृत्त नियमों का पालन करने के लिए सहमत हैं. हम यह भी घोषणा करते हैं कि हमने जो विवरण दिए हैं वे, इस आवेदन की तारीख को, हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही हैं. आगे हम सहमत हैं कि अगर हमने कोई झूठी/गलत जानकारी दी हो अथवा महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया हो तो हमारा खाता बंद किया जाएगा और आगे की कार्यवाही की जाएगी।

The rules and regulations of the Depository and Depository Participants pertaining to an account which are in force now have been read by me/us and I/we have understood the same and I/we agree to abide by and to be bound by the rules as are in force from time to time for such accounts. I/We also declare that the particulars given by me/us are true to the best of my/our knowledge as on the date of making such application. I/We further agree that any false misleading information given by me/us or suppression of any material fact will render my/our account liable for termination and further action.

	धारक (कों) का / के नाम Name(s) of holder(s)	हस्ताक्षर Signature(s)
एकमात्र/प्रथम धारक / Sole/First Holder		C2/11
द्वितीय धारक / Second Holder		
तृतीय धारक / Third Holder		
अभिरक्षक (नाबालिग हो तो) Guardian (In case of Minor)		

व्यक्तिगत रूप से सत्यापित IN PERSON VERIFIED **B1/5**

डीपीआई DPID : IN 302806 डीपी नाम DP NAME : विजया बैंक VIJAYA BANK

अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of the Officer :

अधिकारी का नाम Name of the Officer :

स्टाफ कूट सं. Staff Code No. :

दिनांक व स्थान Date & Place :

परिचय/Introduction

<p>बैंक की वह शाखा द्वारा जहाँ आवेदक का खाता है By the Bank Branch where the applicant is maintaining operative account हम आवेदक / को / जिनका हमारे यहाँ ब. बै./चा.खा./सी.सी.एच.खाता सं. _____ है, की पहचान व पते की पुष्टि करते हैं। We confirm the identify and address of the Applicant's who is / are maintaining their operative Account SB/CA/CCM.CCH No. _____ with us Name of the Signatory हस्ताक्षरी का नाम Name of the Signatory</p>	<p>विजया बैंक के मौजूदा खाता धारक द्वारा by existing account holder of Vijaya Bank DP ID. IN302806 मैं आवेदक (कों) की पहचान और उनके पते की पुष्टि करता हूँ। I confirm the identity and address of the Applicant's नाम/Name ग्राहक का आईडी/Client Id : परिचयकर्ता के हस्ताक्षर (डी पी अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाए) Signature of Introducer (to be verified by DP Official)</p>
B2/5 हस्ताक्षर मुहर के साथ / Signature with Seal	

नामांकन / Nomination

मैं / हम नीचे उल्लिखित व्यक्तियों को नामित करता हूँ / करते हैं जो एकमात्र धारक अथवा सभी संयुक्त धारकों की मृत्यु होने की दशा में मेरे / हमारे खाते में बकाया प्रतिभूतियाँ पाने के हकदार होंगे।
 I/We wish to make a nomination and do hereby nominate the following person in whom all rights and / or amount payable in respect of securities held in the Depository by me/us in the said beneficiary owner account shall vest in the event of my/our death.

नामिती का नाम / Name of the Nominee							
आवेदक (हो तो) के साथ संबंध Relationship with the applicant (if any)							
नामिती का पता Address of Nominee							पिन कोड Pin Code
जन्म तिथि (नाबालिग हो तो) / Date of Birth (in case minor)	D	D	M	M	Y	Y	Y
	नामिती के हस्ताक्षर Signature of Nominee						
अभिरक्षक का नाम Name of the Guardian							
अभिरक्षक का पता Address of Guardian							पिन कोड Pin Code
अभिरक्षक के हस्ताक्षर/ Signature of Guardian							

N2/2

नामिती का फोटोग्राफ
Photograph of Nominee

फोटोग्राफ पर नामिती के
हस्ताक्षर
Signature of Nominee
Across Photograph

अभिरक्षक का फोटोग्राफ
Photograph of Guardian

फोटोग्राफ पर अभिरक्षक के
हस्ताक्षर
Signature of Guardian
Across Photograph

दो साक्षियों के हस्ताक्षर / Signature of Two Witness

नाम / Name	पता / Address	हस्ताक्षर व दिनांक Signature with Date /
1.		
2.		

C3/11

एकमात्र/प्रथम धारक / Sole/First Holder

द्वितीय धारक / Second Holder

तृतीय धारक / Third Holder

नोट / Notes :

- 1 सिर्फ एकमात्र / पहले धारक के पते पर पत्राचार करना होगा .
All communication shall be sent at the address of the Sole/First holder only.
- 2 अंगूठे के निशान और अंग्रेजी अथवा हिन्दी अथवा भारत के संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल न की गई किसी दूसरी भाषा में किए गए हस्ताक्षर का साक्षात्कन, नोटरी पब्लिक अथवा एक विशेष कार्यपालक मैजिस्ट्रेट द्वारा करना होगा .
Thumb impressions and signatures other than English or Hindi or any of the other language not contained in the 8th Schedule of the Constitution of India must be attested by a Magistrate or a Notary Public or a Special Executive Magistrate.
- 3 एसईबीआई परिपत्र सं. एमआरडी/डीओपी/डीईपी/परिपत्र- 29/2004, दि. 24 अगस्त, 2004 का अनुसरण करते हुए जारी किए गए एनएसडीएल परिपत्र सं. एमएसडीएल/पीआई/2004/1622, दि. 7 सितंबर, 2004 के अनुसार, पहचानने के सबूत/पते के सबूत के तौर पर नीचे उल्लिखित दस्तावेज (स्थानीय/पत्राचार/विदेश का पता, जो भी हो):

As per NSDL Circular No. NSDL/PI/2004/1622 dated September 7, 2004 pursuant to SEBI Circular No. MRD/DoP/Dep/Cir-29/2004 dated August 24, 2004 a copy of any one of the following documents may be accepted as proof of identity / proof of address (local/ correspondence / foreign address as the case may be) :

पहचान का सबूत : क) केंद्र/राज्य सरकार और उसके विभागों, ख) सांविधिक/विनियामक प्राधिकरणों, ग) सरकारी उपक्रमों, घ) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको

ड) सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं, च) विश्व विद्यालयों से जुड़े हुए महाविद्यालयों, छ) आईसीएआई, आईसीडब्ल्यूआई, आईसीएसआई, बार काउंसिल आदि जैसे पेशेवर निकायों द्वारा उनके सदस्यों को जारी किए गए पासपोर्ट, मतदाता आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो के साथ पैन कार्ड, फोटो के साथ

पहचान कार्ड/दस्तावेज ज) बैंकों द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड

Proof of identity : Passport, Voter ID Card, Driving license, PAN card with photograph, MAPIN card, identity card/document with applicant's Photo, issued by a) Central / State Government and its Departments, b) Statutory / Regulatory Authorities, c) Public Sector Undertakings, d) Scheduled Commercial Banks, e) Public Financial institutions, f) Colleges affiliated to Universities, g) Professional Bodies such as ICAI, ICWAI, ICSI, Bar Council etc., to their Members; and h) Credit Cards / Debit Cards issued by Banks.

पते का सबूत : राशन कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिलों की सत्यापित प्रतियां (ज्यादा से ज्यादा 2 महीने पुराने) घर के टेलीफोन बिल ज्यादा के ज्यादा 2 महीने पुराने) छुट्टी और लाइसेंस करारनामा/बिक्री के लिए करारनामा, क) केंद्र/राज्य सरकार और उसके विभागों,

ख) सांविधिक/विनियामक प्राधिकरणों, ग) सरकारी उपक्रमों, घ) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ड) सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं, च) विश्व विद्यालयों से जुड़े हुए महाविद्यालयों, छ) आईसीएआई, आईसीडब्ल्यूआई, आईसीएसआई, बार काउंसिल आदि जैसे पेशेवर निकायों द्वारा उनके सदस्यों को जारी किए गए

पहचान कार्ड / पते के साथ दस्तावेज.

Proof of Address : Ration card, Passport, Voter ID Card, Driving license, Bank Passbook, verified copies Electricity bills (not more than two months old) / Residence Telephone bills (not more than two months old) / Leave and Licence agreement / Agreement for sale, Self-declaration by High Court & Supreme Court judges, giving the new address in respect of their own account, identity card/document with address, issued by a) Central / State Government and its Departments, b) Statutory / Regulatory Authorities, c) Public Sector Undertakings, d) Scheduled Commercial Banks, e) Public Financial institutions, f) Colleges affiliated to universities, g) Professional Bodies such as ICAI, ICWAI, ICSI, Bar Council etc., to their members;

प्रतिभागियों को दस्तावेज की प्रतिलिपि का मूल दस्तावेज के साथ सत्यापन करना होगा.

Participants must verify the copy of the document with the original

नामांकन से संबंधित अनुदेश निम्नानुसार हैं :

Instructions related to nomination, are as below :

1. हिताधिकारी मालिक खाते रखनेवाले अलग-अलग व्यक्ति ही अपनी तरफ से अकेले या संयुक्त रूप से नामांकन कर सकते सोसायटी, न्यास, कंपनी निकाय, साझेदारी फर्म, हिंदू अविभाजित परिवार के कर्ता, मुख्तारनामे के धारक सहित गैर-व्यक्ति नामांकन नहीं कर सकते. अगर संयुक्त रूप से रखा गया हो तो सभी संयुक्त धारकों को नामांकन फार्म पर हस्ताक्षर करने होंगे.

The nomination can be made only by individuals holding beneficiary owner accounts on their own behalf singly or jointly.

Non - individuals including society, trust, body corporate, partnership firm, karta of Hindu Undivided Family, holder of power of attorney cannot nominate. If the account is held jointly all joint holders will sign the nomination form.

विजया बैंक / VIJAYA BANK

प्रधान कार्यालय / Head Office

व्यापारी बैंकिंग प्रभाग, डीपी कक्ष / Merchant Banking Division, DP Cell

41/2 एम.जी.रोड / 41/2 M. G. Road, बेंगलूरु / Bangalore - 560 001

शाखा / Branch _____

- II नाबालिग को नामांकित किया जा सकता है। ऐसी हालत में, नाबालिग नामिती का नाम और पता, हितधिकारी मालिक द्वारा उपलब्ध कराया होगा। समय-समय पर लागू विनियम नियंत्रण के अधीन, अनिवासी भारतीय नामिती बन सकेगा।
A minor can be nominated. In the event, the name and address of the Guardian of the minor nominee shall be provided by the beneficial owner.
- III सेसाइटी, न्यास, कंपनी निकाय, साझेदारी फर्म, हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता, मुख्तारनामे के धारक नामिती नहीं बन सकेगा।
The Nominee shall not be a trust, society, body corporate, partnership firm, karta of Hindu Undivided Family or a power of Attorney holder. A non-resident Indian can be a Nominee, subject to the exchange controls in force, from time to time.
- IV हितधिकारी मालिक के खातेके संबंध में, हितधिकारी मालिक का खाता बंद होने पर नामांकन अपने आप विखंडित हो जाएगा। इसी प्रकार, प्रतिभूतियों के संबंध में नामांकन, प्रतिभूतियों के अंतरण होने पर अपने समाप्त हो जाएगा।
Nomination in respect of the beneficiary owner account stands rescinded upon closure of the beneficiary owner account. Similarly, the nomination in respect of the securities shall stand terminated upon transfer of the securities.
- V नामिती के पक्ष में प्रतिभूतियों का अंतरण, कानूनी वारिसों के प्रति निक्षेपकर्ता द्वारा विधिमान्य उन्मोचन होगा।
Transfer of securities in favour of a Nominee shall be valid discharged by the depository against the legal heir.
- VI नामांकन को, हितधिकारी मालिक का खाता रखनेवाले उसी व्यक्ति द्वारा जिसने मूल नामांकन किया था, अपनी तरफ से अकेले या संयुक्त रूप से रद्द किया जा सकता है। सोसाइटी, न्यास, कंपनी निकाय, साझेदारी फर्म, हिंदू अविभाजित परिवार के कर्ता, मुख्तारनामे के धारक सहित गैर-व्यक्ति नामांकन नहीं कर सकता है। अगर खाता, संयुक्त रूप से रखा गया हो तो सभी संयुक्त धारकों को नामांकन फार्म पर हस्ताक्षर करने होंगे।
The cancellation of nomination can be made by individuals only holding beneficiary owner accounts on their own behalf singly or jointly by the same persons who made the original nomination. Non-individuals society, trust, body corporate, partnership firm, karta of Hindu Undivided Family, holder or power of attorney cannot cancel the nomination. If the beneficiary owner accounts is held jointly all joint holders will sign the cancellation form.
- VII नामांकन रद्द होने पर, नामांकन अपने आप विखंडित हो जाएगा और निक्षेपकर्ता, नामिती के पक्ष में प्रतिभूतियों का अंतरण करने के लिए बाध्य नहीं होगा।
On cancellation of the nomination, the nomination shall stand rescinded and the depository shall not under any obligation to transfer the securities in favour of the Nominee.
- 5 जो लागू न हो उसे काट दें।
Strike off whichever is not applicable.

To,
Vijaya Bank

Branch

Declaration / undertaking

- I/We hereby authorise Vijaya Bank to debit all charges in respect of the Demat Account payable by me/us _____ my _____ A.c. No. _____ with _____ branch, I / We undertake to maintain sufficient the account. I / We also authorise the Bank to charge overdue interest at the prevailing commercial rate with penal interest, on the overdrawn balance in the account arisen due to debiting of demat service charges.
- I / We undertake to remit the amount of such overdrawings allowed due to debiting of service charges within 15 days thereof with interest at applicable rate.
- This letter of undertaking is irrevocable without the written consent of the Bank.
- If the transaction is delayed or not effected for reasons of incomplete or incorrect information, the Bank would not be held responsible for the same and I / We undertake to bear all cost / loss arisen thereof.

C/11

Date :

Signature of the Account Holder

अभिस्वीकृति / Acknowledgement

सहभागी का नाम पता व डीपी आई डी / Participant Name, Address & DP Id

निक्षेपागार खाता खोलने के लिए द्वितीय और तृतीय धारकों के रूप में क्रमशः _____ और _____ के साथ एकमात्र / प्रथम धारक के रूप में श्री / श्रीमती से प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार / नामजूर किया गया। स्वीकार किए जाने पर आपके ग्राहक आईडी के बारे में सूचना दी जाएगी। कृपया आप अपने भावी पत्राचार में आपको आवंटित डीपी आईडी और ग्राहक आईडी का उल्लेख करना न भूलें।

Received the application from Mr./Mrs. _____ as the sole / first holder along with _____ and _____ as the second and third holders respectively for opening of a depository account. Your Client Id will be intimated to you shortly. Please quote the DP Id & Client Id allotted to you in all your future correspondence.

दिनांक / Date : _____

सहभागी का स्टॉप व हस्ताक्षर / Participant Stamp & Signature

KNOW YOUR CLIENT (KYC) Application Form - For Individual

NEW CHANGE REQUEST (Please tick ✓ the appropriate)

Please fill this form in **ENGLISH** and in **BLOCK LETTERS**

(Please tick ✓ the box on left margin of appropriate row where **CHANGE/CORRECTION** is required and provide the details in the corresponding row)

Acknowledgement No. _____

A

IDENTITY DETAILS

1. Name of the Applicant _____

2. Father's/Spouse Name _____

3a. Gender Male Female 3b. Marital status Single Married 3c. Date of Birth: [D][O] / [M][M] / [Y][Y][Y][Y]

4a. Nationality Indian Other (Please specify) _____

4b. Status Resident Individual Non Resident Foreign National

5a. PAN _____

5b. Unique Identification Number (UID) / Aadhaar, if any: _____

6. Specify Proof of Identity submitted PAN card Other (Please specify) _____

PHOTOGRAPH

C5/11

Please affix your recent passport size photograph and sign across it

B

ADDRESS DETAILS

1. Address for Correspondence _____

City / Town / Village _____ State _____ Country _____ Pin Code _____

2. Specify the Proof of Address submitted for Correspondence Address: _____

3. Contact Details

Tel. (Off.) _____ Fax _____

Tel. (Res.) _____ Mobile No _____

E-Mail Id _____

4. Permanent Address (If different from above or overseas address, mandatory for Non-Resident Applicant)

City / Town / Village _____ State _____ Country _____ Pin Code _____

5. Specify the Proof of Address submitted for Permanent Address: _____

C

OTHER DETAILS

1. Gross Annual Income Details (Please Specify) Income range per annum: Below ₹ 1 Lac ₹ 1-5 Lac ₹ 5-10 Lac ₹ 10-25 Lac More than ₹ 25 Lacs

OR

Net-worth (Net worth should not be older than 1 year) Amount ₹ _____ as on (date) [D][O] / [M][M] / [Y][Y][Y][Y]

2. Occupation (Please tick ✓ any one and give brief details):

Private Sector Public Sector Government Service Business Professional Agriculturist Retired

Housewife Student Others (Please specify) _____

3. Please tick, if applicable: Politically Exposed Person (PEP) Related to a Politically Exposed Person (PEP)

4. Any other information: _____

D

DECLARATION

I hereby declare that the details furnished above are true and correct to the best of my knowledge and belief and I undertake to inform you of any changes therein, immediately. In case any of the above information is found to be false or untrue or misleading or misrepresenting, I am aware that I may be held liable for it.

Date: [D][O] / [M][M] / [Y][Y][Y][Y]

C6/11

Signature of the Applicant

FOR OFFICE USE ONLY

In Person Verification (IPV) Details:

Name of the person who has done the IPV: _____

Designation: _____ Employee ID: _____

Name of the Organization: _____

Date of IPV: [D][O] / [M][M] / [Y][Y][Y][Y] **B3/5**

Signature of the person who has done the IPV _____

Seal/Stamp of the Intermediary

- (Originals Verified) True copies of Documents received
- (Self Attested) Self Certified Document copies received

Date _____

B4/5

Signature of the Authorised Signatory



विजया बैंक
VIJAYA BANK

(A Government of India Undertaking)
Head Office : 41/2, M.G. Road,
Bangalore - 560 001.
Dept : Merchant Banking Division

Branch :
DP ID : 1N302806
Schedule - A

Schedule of Service Charges

Sl. No.	Activity	Charges
1	Account Opening	Nil
2	Annual Maintenance	Rs. 50/- Per quarter
3	Custody Fee	Rs. 1.50 per ISIN per month
4	Dematerialisation	Rs. 2.00 per certificate. Minimum Rs. 10/- per request
5	Rematerialisation	Rs. 25/- per certificate
6	Market Buy	0.02% of market Value with minimum of Rs. 10/- & max. Rs. 250/- per transaction
7	Market Sell	0.03% of market value with minimum of Rs. 20/- & max Rs. 500/- per transaction
8	Off-Market Buy	0.02% of market Value with minimum of Rs. 10/- & Max of 250/- per transaction
9	Off-Market Sell	0.03% of market Value with minimum of Rs. 20/- & Max of 500/- per transaction\
10	Late Transaction	Rs. 25 per transaction + NSDL charges
11	Pledge / Hypothecation creation	Rs. 50/- per ISIN
12	Pledge / Hypothecation Confirmation, Closure & Invocation	Rs. 25/- per ISIN
13	Additional account statements	Rs. 5/- per page
14	Security Lending & Borrowing	Rs. 50/- per transaction
15	Cheque return charges	Rs. 25/- per cheque
16	Overdue interest for non/delayed settlement of Bills	PLR + 4%
17	Service Tax	As applicable

Nil balance will be treated as one entry for computing custody charges.

No pledge creation charges, if pledge if created in favour of Vijaya Bank

Value of securities are computed as per NSDL rates

The rates are subject to change by giving 30 days notice by ordinary post.

Clients not having operative account with the Bank/ branch should deposit an advance amount of Rs. 1,500/- towards charges and maintain the same at all times.

Postage / Courier charges to be paid in addition to the above wherever applicable.

C7/A1

Signature of First Holder

Signature of Second Holder

Signature of the Third Holder

AGREEMENT BETWEEN THE DEPOSITORY PARTICIPANT AND THE PERSON SEEKING TO OPEN AN ACCOUNT WITH THE
DEPOSITORY PARTICIPANT

This agreement made and entered into this _____ day of _____ between _____ situated at _____ (hereinafter called "the Client") and VIJAYA BANK having Head Office at 41/2, M.G. Road, Bangalore 560 001. (hereinafter called "the Depository Participant").

Witnesseth

WHEREAS the Client has furnished to the Depository Participant the duly filled in application form requesting therein to open an account with the Depository Participant.

NOW THEREFORE in consideration of the Depository Participant having agreed to open an account for the Client, both the parties to the agreement hereby covenant and agree as follows:

- 1) The Client shall pay such charges to the Depository Participant for the purpose of opening and maintaining his account, for carrying out the instructions of the Client and for rendering such other services as may be agreed to from time to time between the Depository Participant and the Client as set out in Schedule A. The Depository Participant shall reserve the right to revise the charges by giving not less than thirty days notice in writing to the Client.
- 2) The Client shall have the right to get the securities which have been admitted on the Depository dematerialised in the form and manner laid down under the Bye Laws and Business Rules. The Depository Participant further undertakes that it shall not create or permit to subsist any mortgage, charge or other encumbrance over all or any of such securities submitted for dematerialisation except on the instructions of the Client.
- 3) The Depository Participant hereby undertakes that it shall maintain a separate account of its own securities held in dematerialised form with the Depository and shall not commingle the same with the securities held in dematerialised form on behalf of the Client.
- 4) The Depository Participant undertakes that a transfer to and from the accounts of the Client shall be made only on the basis of an order, instruction, direction or mandate duly authorised by the Client and that the Depository Participant shall maintain adequate audit trail of such authorization.
- 5) The Depository Participant agrees that the Client may give standing instructions with regard to the crediting of securities in his account and the Depository Participant shall act according to such instructions.
- 6) The Depository Participant undertakes to provide a statement of accounts including transaction statement and holdings statement to the Client at monthly intervals and to the Clients opting for Basic Services Demat Account at quarterly intervals unless the Depository Participant and the Client have agreed for provision of such statements at shorter intervals. However, if there is no transaction in the account, then the Depository Participant shall provide such statement to the Client on an annual basis.
- 7) The Depository Participant shall have the right to terminate this agreement, for any reasons whatsoever, provided the Depository Participant has given a notice in writing of not less than thirty days to the Client as well as to the Depository. Similarly, the Client shall have the right to terminate this agreement and close his account held with the Depository Participant, provided no charges are payable by him to the Depository Participant. In such an event, the Client shall specify whether the balances in its account should be transferred to another account of the Client held with another Depository Participant or to rematerialise the security balances held. Based on the instructions of the Client, the Depository Participant shall initiate the procedure for transferring such security balances or rematerialise such security balances within a period of thirty days, as per the procedure laid down in the Bye Laws and Business Rules. Provided further, termination of this agreement shall not affect the rights, liabilities and obligations of either party and shall continue to bind the parties to their satisfactory completion.
- 8) On the failure of the Client to pay the charges as laid out in Clause (1) of this agreement within a period of thirty days from the date of demand Depository Participant may terminate this agreement and close the account of the Client by requiring it to specify whether the balances in its account be transferred to the account of the Client held with another Depository Participant or be rematerialised in the manner specified in the Bye Laws and Business Rules.
- 9) The Client further agrees that in the event of the Client committing a default in the payment of any of the amounts provided in Clause (1) within a period of thirty days from the date of demand, without prejudice to the right of the Depository Participant to close the account of the Client, the Depository Participant may charge interest @ not more than 24% p.a. or such other rate as may be specified by the Executive Committee from time to time for the period of such default. In case the Client has failed to make the payment of any of the amounts as provided in Clause (1) of this agreement, the Depository Participant shall have the right to stop processing of instructions of the Client till such time he makes the payment along with interest, if any, after giving two days notice to the Client.
- 10) The Depository Participant shall have a right to provide such information related to the Client's account as may be requested by the National Securities Depository Limited from time to time.

- 11) The Client shall have the right to create a pledge of the securities held in the dematerialised form with the Depository Participant only in accordance with the procedure and subject to the restrictions laid down under the Bye Laws and Business Rules.
- 12) The Depository shall not be liable to the Client in any manner towards losses, liabilities and expenses arising from the claims of third parties and from taxes, and other governmental charges in respect of securities credited to the Clients account.
- 13) The Client may exercise the right to freeze his account maintained with the Depository Participant so as to lock the securities held with the Depository Participant in accordance with the procedures prescribed in the Bye Laws and Business Rules.
- 14) The Client may exercise the right to defreeze his account maintained with the Depository Participant in accordance with the procedure and subject to the restrictions laid down under the Bye Laws and Business Rules.
- 15) The Client shall notify the Depository Participant, within seven days, of any change in the details set out in the application form submitted to the Depository Participant at the time of opening the account or furnished to the Depository Participant from time to time.
- 16) The Depository Participant undertakes to resolve all legitimate grievances of the Client against the Depository Participant within a period of thirty days.
- 17) The Depository Participant and the Client shall abide by the arbitration and conciliation procedure prescribed under the Bye Laws of National Securities Depository Limited and that such procedure shall be applicable to any disputes between the Depository Participant and the Client.
- 18) Notwithstanding anything contained herein or in the Bye Laws or Business Rules, neither party hereto shall be liable to indemnify or compensate the other for any breach, non-performance or delay in performance of any obligations under the Agreement or for any harm, loss, damage or injury caused to the other due to causes reasonably beyond its control including but not limited to tide, storm, cyclone, flood, lightning, earthquake, fire, blast, explosion or any other act of God, war, rebellion, revolution, insurrection, embargo or sanction, blockade, riot, civil commotion, labour action or unrest including strike, lock-out or boycott, interruption or failure of any utility service, enemy action, criminal conspiracy, act of terrorism or vandalism, sabotage, or intrusion, or any other irresistible force or compulsion.
- 19) The Depository Participant and the Client further agree that all claims, differences and disputes, arising out of or in relation to dealings on the Depository including any transactions made subject to the Bye Laws or Business Rules of the Depository or with reference to anything incidental thereto or in pursuance thereof or relating to their validity, construction, interpretation, fulfillment or the rights, obligations and liabilities of the parties thereto and including any question of whether such dealings, transactions have been entered into or not, shall be subject to the exclusive jurisdiction of the courts at Mumbai only.

IN WITNESS WHEREOF the Client and the Depository Participant has caused these presents to be executed as of the day and year first above written.

Signed and delivered by **C9/11**

(for and on behalf of the Client)

Witness

fw(2/2)

Signed and delivered by

(for and on behalf of VIJAYA BANK)

Witness

sw(2/2)

B5/5

Schedule A

1. Account Maintaining charges.
2. Custody charges.
3. Transaction charges.
4. Rematerialisation charges.
5. Other charges

**[For New Accounts]
Option for opening Basic Services Demat Account (BSDA)**

To,

VIJAYA BANK
IN302806
DP Cell HEAD OFFICE
VIJAYA BANK
41/2, M G Road
Bangalore - 560001

Date:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

With reference to my / our application for opening a depository account, I/ We request you to open my / our depository account as a BSDA as per the following details:

	Name	PAN							
Sole/First Holder									
Second Holder									
Third Holder									

I/We have read and understood the Securities and Exchange Board of India's guidelines for facility for a BSDA. I/We hereby declare that I/we am/are eligible to open a depository account as a BSDA holder and undertake to comply with the requirements specified by Securities and Exchange Board of India (SEBI) or any such authority for such facility from time to time. I/We also understand that in case I/We at any point of time do not meet the eligibility as a BSDA holder, my / our aforesaid account is liable to be converted to regular account.

C10/11 1 _____ 2 _____ 3 _____

Signature(s) of Account Holder(s)

Basic Services Demat Account (BDSA)**Services Charges**

Item	Particulars	
Annual Maintenance Charges	Holding upto Rs. 50,000.	Zero Annual Maintenance Charges (AMC) Shall be levied.
	Holding between Rs. 50,001 to Rs. 2 Lac.	Rs. 100 Annual Maintenance Charges shall be levied.
	Holding above Rs. 2 Lac	Charges levied as per the regular DP accounts.
	The DP will reassess the eligibility of Beneficial Owner (BOs) at the end of the every Billing Cycle and give option to the BO's to avail this facility.	
Charges statements	for	Electronic statements shall be provided free of Cost. In case of Physical statements, the DP will provide at least 2 statements free of Cost. For additional DP statements, the DP will charges Rs. 25/- per statement.
Service Tax	'Service Tax' to be levied extra.	

CI/II

1 _____ 2 _____ 3 _____

Signature(s) of Account Holder(s)